



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 930]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2014/वैशाख 4, 1936

No. 930]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2014/VAISAKHA 4, 1936

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2014

का.आ. 1131(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 20 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 8 मार्च, 1997 में प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 655 तारीख 26 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी के समतुल्य अधिकारी होने पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे निर्देशित करती है कि संपदा अधिकारी उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा :-

सारणी

अधिकारी का नाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
1. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़ के तहसील और जिला दुर्ग में भिलाई शहर में स्थित, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के (प्रशासनिक) नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित परिसर और, उक्त स्थान में स्थित केन्द्रीय सरकार से संबंधित स्थान और वे स्थान जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।
2. संपदा अधिकारी (खान) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड,	निम्नलिखित खान या क्षेत्र में स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित परिसर और उक्त स्थानों पर स्थित केन्द्रीय सरकार

मिलाई इस्पात संयंत्र, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)	<p>या राज्य सरकार और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वालोद, राजनंदगांव और दुर्ग जिलों में पंडरीदल्ली और राजहरा पहाड़िया, दल्ली, वन क्षेत्र, महामाया-दुल्की वन क्षेत्र, देओरझल, अहिवारा, पिथोरा, नंदिनी, बालोद में कुंदिनी और कुम्हारी, बालोद की क्रमशः मानपुर और दुर्ग तहसील 2. कांकेर जिले में क्रमशः भानुप्रतापपुर और कांकेर तहसील में कल्वर और नागुर क्षेत्र और कांकेर तहसील 3. बिलासपुर जिले के पेनडिडीह, बोडसारा, छटोना, रेहानगी, हिरी, बोदरी 4. नारायणपुर में रोघाट इस्पात अयस्क परियोजना और कांकेर जिला 5. जांजगीर चांपा जिले में जयजयपुर तहसील में इस्पात डोलोमाइट खदान
3. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला जिला सुन्दरगढ़, ओडिशा	ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में पनपोश, राजगंगपुर, बीरमित्रापुर और बोनाई तहसील में स्थापित, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित परिसर और पनपोश, राजगंगपुर, बीरमित्रापुर और बोनाई तहसील में स्थित ओडिशा सरकार से संबंधित परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो ।
4. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर जिला बर्दवान, पश्चिमी बंगाल	<p>पश्चिमी बंगाल में बर्दवान जिले के दुर्गापुर पुलिस स्टेशन और अंदल पुलिस स्टेशन में, दुर्गापुर में दुर्गापुर</p> <p>इस्पात संयंत्र और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के मिश्रधातु इस्पात संयंत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित परिसर और उक्त स्थान पर स्थित केन्द्रीय सरकार से संबंधित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसर</p>
5. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, बोकारो इस्पात संयंत्र जिला बोकारो बिहार	धनबाद जिले में बोकारो इस्पात शहर में, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित परिसर
6. नगर प्रशासक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, सलेम इस्पात संयंत्र	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित परिसर जो तमिलनाडु में सलेम जिले के सलेम, संकारी, ओमालुर और उरियुड तालुक में स्थित है ।
7. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग बोलानी अयस्क खान	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग बोलानी अयस्क खान और बारबिल तहसील और ओडिशा राज्य की और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केयाझर जिले में अवस्थित सरकार से अधिग्रहीत 5.1 वर्ग मील और 6.5 वर्ग मील के खान पट्टा धृति के भीतर ऐसी भूमि पर भवन संयंत्रों और अन्य संरचनाओं के प्रतिष्ठापन सहित सभी भूमि से संबंधित परिसर
8. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग, जिला गढ़वा, बिहार	बिहार के गढ़वा जिले में भावंतपुर खान और पलामु जिले का नगरुन्तरी तहसील में तुलसीदामुर डोलोमाइट खान, पोस्ट आफिस में स्थित वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है ।
9. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग बारसुआ इस्पात खान, तहसील और जिला-सुंदरगढ़	तहसील और जिला-सुंदरगढ़ में स्थित वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो और ओडिशा राज्य से संबंधित उक्त स्थान पर अवस्थित परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो ।
10. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग किरीबुरु, जिला-पश्चिम सिंगभूम, बिहार	बिहार के पश्चिम सिंगभूम जिले में किरी बुरु और ओडिशा के क्यौंझर जिले में अवस्थित वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो
11. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग पश्चिमी सिंगभूम जिले में मेघातुबुरु, बिहार ।	पश्चिमी सिंगभूम जिले के मेघातुबुरु बिहार में अवस्थित वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो
12. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग पूर्णापुनी चूनापत्थर और डोलोमाइट खदान, तहसील बिर्नित्रापुर, जिला-सुंदरगढ़, ओडिशा	तहसील बिर्नित्रापुर, जिला-सुंदरगढ़, में अवस्थित वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो तथा वह परिसर जो ओडिशा राज्य में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो

13. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग गुआ अयस्क खान, जिला-सिंगभूम, बिहार	वह परिसर जो इंडियन आयर्न एंड स्टील कंपनी लिमिटेड से संबंधित है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गुआ, तहसील चाईबासा, जिला सिंगभूम, बिहार में स्थित ; वह परिसर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो तथा मनोहरपुर अवस्थित, डाकघर चिरिया तहसील चाईबासा, जिला सिंगभूम, बिहार में अवस्थित है ।
14. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग चासानल्ला, धनबाद, बिहार ।	वह परिसर जो इंडियन आयर्न एंड स्टील कंपनी लिमिटेड से संबंधित है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जो चासानल्ला है जिला धनबाद, बिहार में तथा हेतदंदा और जीतपुर नूधी में स्थित और जीतपुर, तथा जिला धनबाद, बिहार में भी अवस्थित है ।
	वह परिसर जो इंडियन आयर्न एंड स्टील कंपनी लिमिटेड से संबंधित है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड नियंत्रण के अधीन हो जो पश्चिमी बंगाल के मौजाज़ रामनगौर और इंदिकता, बर्दवान जिले में अवस्थित है
	वह परिसर जो बिहार सरकार से संबंधित है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो जो चासानल्ला तथा हेतदंदा और जीतपुर नूधी जिला धनबाद, बिहार में स्थित और जीतपुर, तथा जिला धनबाद, बिहार में भी अवस्थित है तथा वह परिसर जो पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो जो पश्चिमी बंगाल के मौजाज़ रामनगौर और इंदिकता, बर्दवान जिले में अवस्थित है
15. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग, कालटा अयस्क खान, तहसील बोनाई, जिला-सुंदरगढ़, ओडिशा ।	वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो जो सुंदरगढ़ जिले के तहसील बोनाई में स्थित है और वह परिसर जो ओडिशा राज्य से संबंधित है तथा उस स्थान पर स्थित है जो इंडियन आयर्न और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो ।
16. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग, इस्पात चूनापत्थर खदान, बाबूपुर, तहसील-रघुराज नगर, जिला-सतना, मध्य प्रदेश ।	वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है जो तहसील रघुराज नगर, सतना जिले में स्थित है तथा वह परिसर जो मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो
17. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग, कुटेश्वर चूनापत्थर खान, तहसील-विजयराघवगढ़, डाकघर बरही जिला-जबलपुर, मध्य प्रदेश	वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है जो तहसील विजयराघवगढ़, जिला जबलपुर में स्थित है तथा वह परिसर जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो ।
18. संपदा अधिकारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कच्चा माल प्रभाग, इस्पात डोलोमाईट खदान, बारुद्धार, मध्य प्रदेश ।	वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है जो चित्ता पंडरिया गांव, तहसील सकती, जिला-बिलासपुर में स्थित है और मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित वह परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो ।

[फा. सं. 8(16)/2012-सेल (पीसी) जिल्द. 3]

उपेन्द्र प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st April, 2014

S.O. 1131 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 20 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel dated the 26th February, 1997 published in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 655, dated the 8th March, 1997 except as respect, things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in column (1) of the Table below, being Officers equivalent to the rank of Gazetted Officer of Government, to be Estate Officers for the purpose of the said Act and further directs that the Estate Officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on Estate

Officer by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdictions, in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of officers	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
1. Estate Officer, Steel Authority of India Limited, Bhilai Steel Plant, District – Durg, (Chhattisgarh).	Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of India Limited, situated in Bhilai Township in Tehsil and District Durg of Chhattisgarh and premises belonging to the Central Government situated at that place and placed under the administrative control of Steel Authority of India Limited.
2. Estate Officer (Mines) Steel Authority of India Limited, Bhilai Steel Plant, District –Durg, (Chhattisgarh).	Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of India Limited situated at the following Mines or areas and the premises belonging to the Central or State Government situated at those places and placed under the administrative control of Steel Authority of India Limited. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pandridalli and Rajhara Hills, Dalli, Forest Range, Mahamaya-Dulki Forest Range, Deorjhal, Ahiwara, Pithora, Nandini, Kundini and Kumhari in Balod, Manpur and Durg Tehsils respectively of Balod, Rajnandgaon and Durg Districts. 2. Kalwar and Nagur area at Bhanupratappur and Kanker Tehsils respectively of Kanker District. 3. Pendidihi, Bodsara, Chhatona, Rehang, Hirri, Bodri of Bilaspur District. 4. Rowghat Iron Ore Project in Narayanpur and Kanker District. 5. Ispat Dolomite Quarry in Tehsil Jaijaipur in Janjgir Champa District.
3. Estate Officer, Steel Authority of India Limited, Rourkela Steel Plant, Rourkela, District - Sundargarh, Odisha.	Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, and situated in the Tehsil of Panposh, Rajgangpur, Birmatrapur, and Bonai in the District of Sundargarh in Odisha and premises belonging to the Government of Odisha situated at the Tehsil of Panposh, Rajgangpur, Birmatrapur and Bonai and placed under the administrative control of Steel Authority of India Limited.
4. Estate Officer, Steel Authority of India Limited, Durgapur Steel Plant, Durgapur, District - Burdwan, West Bengal.	Premises belonging to and under the administrative control of Durgapur Steel Plant and Alloy Steel Plant of the Steel Authority of India Limited, at Durgapur in Durgapur Police Station and Andal Police Station of Burdwan District in West Bengal and premises belonging to the Central Government situated at these places under the administrative control of Steel Authority of India Limited.
5. Estate Officer, Steel Authority of India Limited, Bokaro Steel Plant, District - Bokaro, Bihar.	Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India limited, Bokaro Steel Plant, situated in Bokaro Steel City in the District of Dhanbad.
6. Town Administrator, Steel Authority of India Limited, Salem Steel Plant.	Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited and situated in Salem, Sankari, Omalur and Uereaud Taluks of Salem District in Tamil Nadu.
7. Estate Officer, Steel Authority of India Limited, Raw Materials Division, Bolani Ore Mines.	Premises belonging to all the land including building plants and other structures installation of such land within the mining lease holds of 5.1 Sq. Miles and 6.9 Sq. Miles acquired from the Government, belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, Raw Materials Division Bolani Ore Mines and situated at Barbil Tehsil and District Keonjhar in the State of Odisha.
8. Estate Officer, Steel Authority of India Limited, Raw Material Division, District - Garhwa, Bihar.	Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Bhawanthpur Mines in District Garhwa and Tulsidamur Dolomite Mines Post Office Nagar in the Tehsil Nagaruntari District of Palamu, Bihar.

- | | |
|---|--|
| <p>9. Estate Officer, Steel Authority of India Limited,
Raw Material Division,
Barsua Iron Mines,
Tehsil and District- Sundargarh.</p> | <p>Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Tehsil and District Sundargarh and premises belonging to State of Odisha situated at that place and placed under the administrative control of Steel Authority of India Limited.</p> |
| <p>10. Estate Officer, Steel Authority of India Limited,
Raw Material Division,
Kiriburu, District - West Singhbhum, Bihar.</p> | <p>Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of India Limited, situated at Kiriburu in the District of West Singhbhum, Bihar and District of Keonjhar Odisha.</p> |
| <p>11. Estate Officer, Steel Authority of India Limited,
Raw Material Division,
Meghahatuburu in the District of West Singhbhum, Bihar.</p> | <p>Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of India Limited, situated at Meghahatuburu in the District of West Singhbhum Bihar.</p> |
| <p>12. Estate Officer, Steel Authority of India Limited,
Raw Material Division,
Purnapuni Limestone and Dolomite Quarry, Tehsil Birnitrapur,
District - Sundargarh, Odisha.</p> | <p>Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Tehsil Birmitrapur, District Sundargarh and premises belonging to State of Odisha situated at that place and placed under the administrative control of Steel Authority of India Limited.</p> |
| <p>13. Estate Officer, Steel Authority of India Limited,
Raw Material Division,
Gua Ore Mines,
District - Singhbhum, Bihar.</p> | <p>Premises belonging to Indian Iron and Steel Company Limited and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Gua, Tehsil Chaibasa, District Singhbhum, Bihar; premises belonging to Indian Iron and Steel Company Limited under the administrative control of Steel Authority of India Limited and situated at Manoharpur, Post Office Chiria Tehsil Chaibasa, District Singhbhum, Bihar.</p> |
| <p>14. Estate Officer, Steel Authority of India Limited,
Raw Material Division,
Chasanalla, Dhanbad, Bihar.</p> | <p>Premises belonging to India Iron and Steel Company Limited and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Chasanalla, District Dhanbad, Bihar and at Hetdandra and Jitpur at Noondih and Jitpur, also in the District of Dhanbad, Bihar.</p> <p>Premises belonging to India Iron and Steel Company Limited and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Mauzas Ramnagore and Indikata in the District of Burdwan, West Bengal.</p> <p>Premises belonging to the Government of Bihar and under the management and administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Chasanalla, Hetkundra, Jitpur at Noondih, and Jitpur, both in the District of Dhanbad, Bihar and Premises belonging to Government of West Bengal and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Mouzas Ramnagore and Indkata in the District of Burdwan, West Bengal.</p> |
| <p>15. Estate Officer, Steel Authority of India Limited,
Raw Material Division,
Kalta Iron Mines, Tehsil Bonai, District - Sundargarh, Odisha.</p> | <p>Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of India Limited, situated at Tehsil Bonai, District Sundargarh and premises belonging to State of Odisha situated at that place under the administrative control of Steel Authority of India Limited.</p> |
| <p>16. Estate Officer, Steel Authority of India Limited,
Raw Material Division,
Ispat Limestone Quarry,
Babupur,
Tehsil -Raghuraj Nagar,
District- Satna, Madhya Pradesh.</p> | <p>Premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited, situated at Tehsil Raghuraj Nagar, District Satna and premises belonging to State of Madhya Pradesh situated at that place and placed under the administrative control of the Steel Authority of India Limited.</p> |

-
- | | |
|--|--|
| 17. Estate Officer, Steel Authority of India Limited,
Raw Material Division,
Kuteshwar Limestone Mines,
Post Office-Barahi,
Tehsil- Vijayraghavgarh,
District - Jabalpur, Madhya Pradesh. | Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of India Limited, situated at Tehsil Vijayraghavgarh, District Jabalpur and premises belonging to State of Madhya Pradesh situated at that place and placed under the administrative control of Steel Authority of India Limited. |
| 18. Estate Officer, Steel Authority of India Limited,
Raw Material Division,
Ispat Dolomite Quarry,
Baruduar, Madhya Pradesh. | Premises belonging to and under the administrative control of Steel Authority of India Limited, situated at Chitta Pandaria Village, Tehsil Sakti, District - Bilaspur and premises belonging to State of Madhya Pradesh situated at that place and placed under the administrative under control of Steel Authority of India Limited. |
-

[F. No. 8(16)/2012-SAIL (PC) Vol. III]

UPRENDRA PRASAD SINGH, Jt. Secy.